

प्रेस नोट दिनांक 20.07.2022

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 देशी तमंचा 315

बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा दिनांक 20.07.2022 को समय 09.25 बजे लकड़ी के पुल से सोफिया स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवम मेहरा पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम रुपडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 400/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शिवम मेहरा उपरोक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शिवम मेहरा पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम रुपडी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 400/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

1. एक अवैध अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 2- एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- 1-उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना सदर बाजार सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- 3-का0 2074 कपिल कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- 4- का0 1166 विपिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 20.07.2022 थाना बेहट जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी / अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बेहट महोदय के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पुलिस द्वारा थाने पर वादी श्री अंकित कुमार पुत्र हुकम सिंह नि० ग्राम सुल्तानपुर माली द्वारा मु०अ०सं० 352/22 धारा 307 भादवि बाबत अभियुक्त गण 1. देशराज पुत्र फूल सिंह 2. संदीप पुत्र देशराज 3. सुनीता पत्नी संदीप नि०गण सुल्तानपुर माली थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा निखिल पुत्र सुभाष को जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मार देने के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त के वाँछित अभियुक्त गण 1. देशराज पुत्र फूल सिंह 2. संदीप पुत्र देशराज नि०गण सुल्तानपुर माली थाना बेहट जिला सहारनपुर को आज दिनांक 20.07.22 को मुखबिर की सूचना पर मिर्जापुर रोड मीरगढ तिराहे से समय 08.40 बजे गिरफ्तार किया गया अभियुक्त संदीप कुमार की जेब से एक अदद चाकू जिससे मजरूब निखिल को जान से मारने की नीयत से पेट में वार किया था बरामद हुआ। अभियुक्त गण को मा० न्या० के समक्ष पेश किया जा रहा है।



अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- 1. देशराज पुत्र फूल सिंह नि० ग्राम सुल्तानपुर माली थाना बेहट जिला सहारनपुर
- 2. संदीप पुत्र देशराज नि०सुल्तानपुर माली थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री बृजेश कुमार पाण्डेय थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 2- उ०नि० श्री नरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
- 3- है०का० 271 मौ० कामिल थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
- 4- का० 2508 सर्वेश कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 20/07/2022

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा अवैध शराब व उपकरण सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:-

दिनांक 19-07-22 को थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा बाबूराम इंटर कालेज सुन्हेडी खडखडी के पीछे बनी ट्यूबवैल से अभि 0पंकज पुत्र प्रीतम निवासी सुनहैटी खडखडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को 02 लीटर अवैध कच्ची शराब मय 01 ली0 लहन व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु 0सं0अ0273/22 धारा 60(2) आबकारी अधिपंजीकृत किया गया 0।

थाना देवबंद पुलिस द्वारा अवैध असलहा सहित -अभियुक्त गिरफ्तार: 01

दिनांक 19-07-22 को थाना देवबंद पुलिस द्वारा जंगल ग्राम दिवालहेडी से अभि 0शुभम उर्फ राजा पुत्र रमेश निवासी बाबूपुर नंगली थाना देवबंद जनपद सहारनपुर को बोर सहित गिरफ्तार किया गया 315 अदद तमन्चा 01। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु 0सं0अ0483/22 धारा 3/25/ 27आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।